

bajaj CONSUMER CARE

July 6, 2022

DCS-CRD BSE Limited First Floor, New Trade Wing Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai 400 023 Stock Code: 533229	Listing Compliance National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, 'G' Block Bandra- Kurla Complex Bandra East, Mumbai 400 051 Stock Code: BAJAJCON
--	--

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper clippings - 16th Annual General Meeting and information on E-voting and other related information

The Sixteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, August 1, 2022 at 11:00 A.M. IST at The Fern Residency, Plot No.1, Madhu Nursery Compound, Hiren Magri Sector 3, Near Sevashram Flyover, Udaipur 313001, Rajasthan.

Further, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find attached Public Notice of 16th AGM of the Company published on today, i.e. July 6, 2022 in the following newspapers:

Economic Times (English) and
Jai Rajasthan (Hindi).

The same may please be taken on record and suitably disseminated to all concerned.

Yours Sincerely,
For Bajaj Consumer Care Limited



Vivek Mishra
Head-Legal & Company Secretary
Membership No.: A21901

Encl: as above

Nod for 80 FDI Proposals from China Cos

Preference for acquisition of minority stakes, investments in capital-intensive sectors like manufacturing

Pavan Burugula
@timesgroup.com

Mumbai: India has approved 80 proposals involving Chinese entities as on June 21, according to data accessed through Right to Information (RTI).

The government received 111 proposals from the Chinese in all for consideration since India imposed restrictions on investments from countries that share land border with it. Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) said in response to the RTI.

It is not clear as to how many proposals have been rejected.

Following the skirmish at the border, New Delhi in 2020 imposed prior government approval, including a security clearance, mandatory for any FDI coming from countries that share land borders with India.

Until mid-2021, the government

Money Matters

Govt 382 FDI applications from Chinese entities

Data as on June 29

Security clearance mandatory for FDI from neighbouring countries

Scale introduced in 2020, post border skirmish with China

What industry participants are saying:

Approval process is still slow

Minority stakes without control and manufacturing sector getting preference

Entities involving politically exposed persons not being viewed favourably

in the manufacturing sectors are getting ahead faster than others," said Nandini Pathak, leader, fund formation & regulatory services of Nishith Desai Associates. "Some of the applications have been pending for over a year, whereas the industry expectation is to get a response within 3-4 months."

DPIIT did not respond on the questions regarding how many applications were rejected or the quantum of investment that will come into India through the 80 applications that were approved.

Another key factor being considered by the government is the profile of the investor. Market participants said the government is going slow on the investment proposals that involve enti-

Govt to Generate \$12 b from Windfall Tax on Crude: Moody's; Trims RIL Profit Forecasts

Our Bureau

New Delhi: The taxes imposed on domestic crude oil and fuel exports will generate close to \$12 billion (\$94,800 crore) for the government in the remainder of the current fiscal.

The country's large foreign exchange reserves remain sufficient to pre-empt any issues concerning the repayment of external debt despite the weakening of the rupee, it said.

The additional revenue will help offset the negative impact of the reduction in income duties for petrol and diesel announced in late May to ease soaring inflation.

"Significant additional tax revenue will offset fiscal pressure on the sovereign," it said.

On July 1, the government imposed a "windfall" tax on the export of petrol, diesel and aviation turbine fuel (ATF), and a cess on domestically produced crude oil.

"The tax increase will reduce the profits of Indian crude producers and oil exporters like Reliance Industries Limited (RIL) and Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC)," Moody's said in a note on the new taxes.

Services Activity Hits 11-yr High in June Despite Cost Pressures

PMI Business Activity Index rises to 59.2 from 58.9 in May

Our Bureau

New Delhi: India's services sector activity strengthened to an 11-year high following an improvement in demand conditions, even as cost pressures remained stubbornly high, a monthly survey said on Tuesday.

The seasonally adjusted S&P Global India Services

running the services sector witnessed an expansion in output. Demand for services improved to the greatest extent since February 2011, supporting a robust economic expansion for the sector over the first quarter of the fiscal year 2022-23 and setting the scene for another substantial upturn to output next month," said Volynna De Lima, Economics Associate Director at S&P Global Market Intelligence.

A retreat from pandemic restrictions, capacity expansion and a favourable economic environment contributed to the improvement in services activity.

Firms were able to secure new orders despite changing more for their services. June data showed the fastest rise in selling prices since July 2017, as several companies transferred part of their additional input costs to clients.

"Cost pressures in the service economy remained stubbornly high in June, despite easing to a three-month low. With companies retaining significant pricing power owing to robust demand conditions, output charge inflation climbed to a near five-year peak," Lima said.

Work Needs to be Done to Prune GST Exempt Items in Services: Revenue Secy

Our Bureau

New Delhi: A lot of work needs to be done to prune Goods and Service Tax-exempt items, especially in the services sector, revenue secretary Tarun Bajaj said Tuesday.

Addressing a CII interactive session, Bajaj said the effort is to remove the "rough edges" in GST over the next two-three years.

On rationalisation of GST rates, the secretary said a group of ministers is looking into it.

"We will have to wait for some time," he said. Exemptions still remain a large number on the services side, Bajaj said, adding "work needs to be done to prune it."

On 5% GST on non-ICU hospital rooms costing above Rs 5,000, he said it will not hit a large section of people and the impact of the levy would only be minimal. Bajaj said he would like to know how many hospital rooms there are in the country and out of those what are the percentage of rooms which are charging above Rs 5,000. I think it will be around 50. So if you spend Rs 5,000 on a room, I can perhaps spend Rs 250 on GST. This GST, which comes into a common pool, will be used for the poor," Bajaj said.

bajaj CONSUMER CARE

Bajaj Consumer Care Limited

Head Office: Old Station Road, Sevasthram Chouraha, Udaipur 313 001, Rajasthan
Phone: 0294-258131-32 • Website: www.bajajconsumercare.com
Email: compliance@bajajconsumercare.com

NOTICE OF THE 16th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting") of the Company is scheduled on Monday, 1st day of August 2022 at 11:00 A.M. at the Fern Residency, Plot No. 1, Madhu Nursery Compound, Hiran Magri Sector 1, Near Sevasthram Flyover, Udaipur 313001, Rajasthan, to transact the business as set out in the Notice of the AGM of the Company.

Pursuant to provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder, Regulation 36 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), Secretarial Standard on General Meetings and other applicable provisions, the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22 have been sent through electronic mode via e-mails to those Members whose e-mail ids are registered with the Company, Depository Participant(s) / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company and physical copies to those members whose e-mail ids are not registered with the Depository Participant(s) or RTA as on June 30, 2022 at their respective registered postal addresses vide the permitted mode. The dispatch of the Annual Report is completed on July 5, 2022. The aforesaid documents are also hosted on the website of the Company viz. www.bajajconsumercare.com and website of the Stock Exchanges, viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFintech Technologies Limited ("KFINTECH") at www.evoting.kfintech.com.

In case, Members wish to get a physical copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22, they may send a request to the Company at 3rd Floor, Building No. 12, Solitaire Corporate Park, 167, Guru Harigobind Marg, Chokkai, Anandhari (East), Mumbai 400 093 or send an e-mail at anandharip@bajajconsumercare.com by quoting their DP ID and Client ID or Folio Number and the Company will send the same free of cost.

Pursuant to provisions of Section 105 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings, the Company is providing to its Members with a facility to cast their vote on all the business items set forth in the Notice of AGM by electronic means from a place other than venue of the AGM ("Remote e-voting"). The Company has engaged the service of KFINTECH for providing e-voting services through e-voting platform.

Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of July 25, 2022, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting of voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Thursday, July 28, 2022 at 9:00 A.M. (IST) and concludes on Sunday, July 31, 2022 at 5:00 P.M. (IST). During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date may cast their votes through remote e-voting. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFINTECH upon expiry of the aforesaid period. Details of the process and manner of remote e-voting are furnished in the said Notice.

Please read carefully the instructions and information relating to e-voting, furnished in the Notice of the AGM, before exercising the vote through e-voting. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com and also refer to the voting instructions on the KFINTECH website. However, a person who is already registered on the CDSL/NSDL e-voting platform, he can use his existing User ID and Password. Further, any person, who ceases to be the Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of this communication, shall treat the same for information purpose only.

Pursuant to provisions of Section 107 of the Companies Act, 2013, since the Company is providing the facility of remote e-voting to the Members, there shall be no voting by show of hands at the AGM. The Company is also offering facility for voting by way of giving pre-authorized proxies at the AGM for the Members attending the meeting, who have not casted their vote by remote e-voting. However, Members who have already casted their votes by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to vote, if a Member cast votes by both modes, i.e. remote e-voting and giving papers at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote cast through giving paper shall be treated as invalid.

The Company has appointed Mr. S.N. Viswanathan, Practising Company Secretary (Membership No. A-61955; Certificate of Practice No. 24335) falling firm Ms. Malat Kumar, Practising Company Secretary, (Membership No. A-15509; Certificate of Practice No. 10980), as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on poll instead of himself. A proxy need not be a member of the Company. The Proxy Form duly completed, stamped and signed should reach the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the AGM. The details with respect to the appointment and the conduct of the proxy can be referred to in the Notice of the AGM.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.kfintech.com or address the same to Mr. PRERCH Murthy, Sr. Manager, KFin Technologies Limited, Solenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Narsaraopeta, Hyderabad - 500 032 or call on toll free no. 1-800-209-4001 or send a request at evoting@kfintech.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Book of the Company will remain closed from Tuesday, July 26, 2022 to Monday, August 1, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 16th Annual General Meeting & Payment of Final Dividend.

Date : July 5, 2022
Place : Mumbai

By order of the Board of Directors
Sd/-
Vivek Mishra
Head-Legal & Company Secretary
Membership No. : A21901

bajaj GROUP

STATE BANK OF INDIA

Regional Business Office- 1, 1st Floor, A-23, Shaanti Nagar, Jodhpur, (Raj.)-342002. Ph: 0291-2771552

REQUIREMENT OF LEASED SPACE FOR COMMERCIAL/OFFICE

State Bank of India (SBI) invites proposals for premises on leased basis from owners/power of attorney holders for commercial/office use of the following branches.

Details of Proposed Branch	City And Place Name	Desired Floor Area
SBI Jhansi Branch (Within 1 km from Present Branch, on the main road, on the ground floor)	Colonel Area Approx. 195 Sqm/with enough parking	
SBI Jhansi Branch (Within 1 km from Present Branch, on the main road, on the ground floor)	Governa Area Approx. 344 Sqm/with enough parking	

Terms and Conditions, Tender Submission Form can be obtained from SBI above said branches or "Procurement Name" section under website www.sbi.co.in. A certificate issued by the local body to the effect that the premises is commercial, should be attached with the technical bid. Last date of submission of tender is 20.07.2022 till 15.30 hrs. SBI reserves the right to accept/reject any offer without assigning any reason therefor. No brokerage will be given.

Can Fin Homes Limited

1-C-18, 9th Floor, Front Side, Sheela Choudhary Road, Sakinaka, P.O. 204065, Phone: 0744-2428300, M: 782579186, Email: info@canfinhomes.com, CAN-185104@185104.CO.IN

POSSESSION NOTICE (RULE 8(1))

The undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 01.02.2022 calling upon the borrower Mrs. MAMA DEVI WHO LATE MOHAMMAD FARID to pay the amount mentioned in the notice being Rs.45,85,051/- and interest from 01.02.2022 to till date of final payment within 60 days from the date of the said notice. The borrower having failed to pay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the 30th day of JUNE of the year 2022.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to transfer the secured assets.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CRL for an amount of Rs.42,86,051/- and interest thereon.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

HOUSE NO- 1-YA-19, VIGYAN NAGAR, KOTA, RAJASTHAN-324005
Boundaries- North- 1-YA-20, South- 1-YA-18, East- ROAD, West- 1-YA-10

Date: 05.07.2022, Place: Kota

Sd/- Authorised Officer
Can Fin Homes Limited

IDBI Bank Ltd. Regd. Off: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005.

PUBLIC NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS OF GTL LIMITED ("the borrower") THROUGH E-AUCTION

E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("SARFAESI Act") read with provision to rule 8(b) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Enforcement Rules"). Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower and Guarantor(s) that the below described immovable properties, mortgage/charge/secured to the consortium of lenders, will be sold on the terms and conditions listed below.

The undersigned being the Authorized Officer (AO) of IDBI Bank Ltd. (IDBI) on behalf of consortium of lenders invite bids/offers (Bids) for sale of the following secured assets of GTL LIMITED under the provisions of the SARFAESI Act read with the Enforcement Rules, possession whereof has been taken by the AO, IDBI Bank Ltd on November 19, 2020 (for property mentioned under Lot No. (i) to (v)), November 29, 2020 (for property mentioned under Lot No. (vi)), November 20, 2020 (for property mentioned under Lot No. (vii)).

STATUTORY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(b) read with Rule 9(i) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 - The mortgage/borrower/guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned in point no. 2 below along with interest upto date and ancillary expenses before the auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

Lot No.	Description of Assets
(i)	Electronic Sadaan I - Property A that piece of Unit No. 14 & 15 B Type and Unit No. 16 A Type on 3rd Floor containing by admeasuring 135-20 sq. meters + 195-20 sq. meters + 246.35 sq. meters respectively and totalling 576.75 sq. meters or thereabouts on the 3rd Floor of the flat factory building standing on a piece or parcel of land known as plot no. 1 in the TTC Industrial Area within village limits of Mahape, Taluka Thane, District and Registration Sub District Thane which said plot of land admeasuring 1775 square meters or thereabouts. All that piece of unit no 13 A type on 3rd floor containing by admeasuring 246.65 sq. meters or thereabouts on the 3rd Floor of the flat factory building standing on a piece or parcel of land known as plot no. 1 in the TTC Industrial Area within Village Limits of Mahape Taluka Thane, District and registration District Thane which said plot of land admeasuring 8775 sq. meters or thereabouts.
(ii)	Electronic Sadaan 2 - All that piece and parcel of land, known as Plot No. Electronic Sadaan No. 2 together with buildings thereon having built up area of 64 gajats/units in the TTC Industrial Area, within the village limits of Mahape and within the limit of Navi Mumbai Municipal Corporation, Taluka and Registration Sub District Thane and Registration District Thane containing by admeasuring 10125 sq. meters or thereabouts together with all the buildings and structures thereon, fixtures, fittings and all plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, both present and future.
(iii)	EL-3 - All that piece or parcel of land known as Plot No. EL-3 in the Trants Thane Creek (TTC) Industrial Area, within Village limits of Mahape and within the limits of Navi Mumbai Municipal Corporation Taluka and Registration sub-district Thane, District and Registration District Thane containing by admeasurements 1800 sq. mtrs or thereabouts together with the building and erections standing thereon admeasuring 3494.39 sq. meters.
(iv)	ES-4 - All that piece and parcel of land known as Plot No. Electronic Sadaan No. 4 together with buildings thereon having built up area of 64 gajats/units in the TTC Industrial Area, within the village limits of Mahape and within the limit of Navi Mumbai Municipal Corporation, Taluka and Registration Sub District Thane and Registration District Thane containing by admeasurements 8840 + 1453 = 10270 sq. meters or thereabouts together with all the buildings and structures thereon, fixtures, fittings and all plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, both present and future.
(v)	All that piece of land belonging to the Trustees in the Island of Mumbai situated on the Mody Bay Estate comprising admeasurements Five Hundred and Fifty Three square yards and six sixths of another square yard equivalent to 462.94 sq. mtrs or thereabout along with a building thereon of ground and 5 upper floors admeasuring 12872.50 sq. feet equivalent to 1195.88 sq. meters built up area which said piece of land registered in the Books of the Collector of Land Revenue Mumbai under Cadastral Survey No. 108/1187 (Fort Division) Ward No. A2837-40, Fort Street, Mumbai.
(vi)	All that piece or parcel of freehold non-agricultural land admeasuring 296.50 Sq. meters forming part of the said Property known as Plot No.37 admeasuring 296.50 Sq. meters or thereabouts forming part of Survey Nos.36A of Mouje Pail of Sudhagad Taluka District Raigad and together with all buildings and structures thereon and all plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, both present and future.
(vii)	Row House bearing No. 2 on the Ground and First Floor and Car Parking Space No. NIL together with exclusive right to use occupy and enjoy the open space/garden/terrace of the building known as "Goodwood Terrace" in the Complex "Clover Village" situated at Survey no. 66/67, Hissa No. 2A 66A Hissa No. 1A & 66A, Hissa No. 1B, Village Vranowale, Sub District of Haveli, District - Pune - 411 040 together with the structures standing thereon and the said lands adjacent to each other their consolidated boundaries together with all the buildings and structures thereon, fixtures, fittings and all plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, both present and future.

Lot No.	Reserve Price (Rs. in Lakh)	EMD (Rs. in Lakh)	Date of inspection	Last Date of Submission of Sealed Bids	Date of opening of bids
(i)	671	100.65	11/07/2022 to 15/07/2022 On request	20/07/2022 till 6.00 pm.	21/07/2022 from 11.00 a.m. to 1.00 p.m.
(ii)	6704	335.20			
(iii)	1605	240.75			
(iv)	8339	316.95			
(v)	3070	307.00			
(vi)	12	3.00			
(vii)	236	35.40			

2 The dues of IDBI Bank Ltd. and other consortium of secured lenders as on December 31, 2021 stand at Rs.7250,56,51,202.64/- (Rupees Seven Thousand Two Hundred Fifty crore Fifty Eight Lakh Fifty Four Thousand Two Hundred Two and Paise Sixty Four Only) plus interest thereon.

3 List of the terms & conditions:

- The Sale of Secured Assets is on "as is where it basic", "as is what is basic", "whatever there is basic" and "no recourse basis" for and on behalf of the Secured Creditors viz: IDBI Bank Ltd (Lead Bank) and other consortium lenders. All statutory liabilities/taxes/etc., outstanding as on date and yet to fall due would be ascertained by the bidder(s) and would be borne by the successful bidder. Bank does not take any responsibility to provide information on the same.
- The immovable properties shall not be sold below the reserve price mentioned above respectively.
- The Bidder, who is desirous of undertaking a visit to the Site, shall do so by intimating the Process Advisor prior to the Bid Due Date, and shall inform ICMS via email to project@idbicapital.com about the details of the team and itinerary at least 2 (two) Business Days prior to scheduled visit to the Site, the visit to the Site shall be permitted from 11/07/2022 to 15/07/2022 only on request basis.
- No sale of the property shall take place before the expiry of fifteen days (15 days) from the date of publication of this notice.
- The Bidder(s) needs to submit separate Bids along with separate EMs for each property that is being bid.
- The Earnest Money Deposit (EMD) will not carry interest. AD may retain the EMD of the top three bidders up to two months from the date of the E-Auction. The Bids so retained will be valid for two months from the date of auction or till further extension of time as may be approved by the AO. The EMD of other bidders will be returned within 10 working days from the date of auction without interest in their name only.
- The Bidders are requested to conduct the legal due diligence with respect to the assets for any encumbrances and litigation prior to submission of the bid.
- The sale shall be confirmed in favour of the successful bidder who has offered the highest sale price in his bid.
- The successful bidder will be required to deposit 25% of the sale price (less the amount of EMD deposited) at the time of confirmation of sale. The balance amount of the sale price is to be paid within 15 days of the confirmation of the sale or such extended period as may be agreed to by the AO. In case of failure to deposit the balance amount within the prescribed period, the deposited amount shall be forfeited, including earnest money.
- AO on behalf of consortium of lenders reserves the right to accept or reject any or all bids without assigning any reason(s), in case all the bids are rejected, the AO reserves the right to sell the assets by any of the modes as prescribed in the SARFAESI Act.
- The Secured Assets mentioned in the Bid Document are based on the charges/mortgages created by the Borrower in favour of Secured Creditors, the details whereof are given in the bid document. Interested parties are requested to verify the details of the Secured Assets and inspect the records relating to mortgaged assets available with AO on request.
- IDBI Bank & other consortium lenders do not take responsibility for any errors/omissions/discrepancy/shortfall etc. in the secured Assets or for procuring any permissions etc. or for the dues of any authority established by law.
- The Secured Assets are being sold free from charges and encumbrances of the Secured Creditors.
- Bidders need to submit EMD along with required documents as mentioned in the process document.
- The successful bidder shall be required to bear all the necessary expenses like stamp duty, registration, expenses, tax liabilities, other dues if any etc for transfer of secured asset.
- The Process Document can be obtained from Smt. Anjali Nediarni, Authorised Officer, IDBI Bank Ltd., NPA Management Group, 7th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005. (T) +91-22-6655 2112, (email) anandkarni@idbi.co.in in free of charge and can also be downloaded from www.idbibank.in
- interested parties may contact undersigned on: (T) +91-22-6655-2112, (M) 9800546175 (email) anandkarni@idbi.co.in or (T) +91-22-6626 3632, (M) 9940084265 (email) nripun.gautam@idbi.co.in or his representative (T) +91-22-6655 3153 (M) 9883157920 (email) bhagpat.gautam@idbi.co.in and IDBI Capital Markets & Securities Ltd (Process Adv. team appointed by IDBI Bank) - Smt. Jitendra Agarwal (022-22171700) (email project@idbicapital.com).

Place: Mumbai
Date: 06/07/2022

Sd/-
Authorised Officer
IDBI Bank

Give your Supply Chain career a boost

IIM Ahmedabad invites applications for Executive Programme in Supply Chain & Logistics Management

Durations: 9-18 months commencing in August 2022

Live online classes on Sunday at VCNOW Centers across India

Comprehensive coverage from strategy, planning and operations perspective | Ideal for professionals aiming for high-growth Supply Chain career | Designed and delivered by IIM Ahmedabad faculty | Includes 4-day campus module at IIM Ahmedabad | Certificate of participation by IIM Ahmedabad

Eligibility: Graduate working executives / entrepreneurs with at least two years of operational experience

To know more, visit iim.ac.in/supplychainprog or Call (+91) 7290039890

Service Provider: VCNOW

